

14/5

420
10/2/13

Deputy Registrar (M)

May kindly see the letter, placed below at fläg 'AA', received from Sri Gyanendra Singh, the then Judicial Magistrate, Ambedkarnahgar now posted as Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad by which he has furnished the reply, in compliance of order of Hon'ble Mr. Justice R. S. Ram (Maurya), the then Administrative Judge, Ambedkarnagar in the matter of Property Statement, communicated to the officer vide Court's letter dated 18-04-2013.

In this connection, it is submitted that earlier Sri Gyanendra Singh had submitted his movable & immovable property statements for the financial years 2010-11 & 2011-12 which were put up before the then Hon'ble Administrative Judge, Ambedkarnagar through detailed office note dated 10-01-2013 (flagged 'BB') on which his Lordship has been pleased to pass the following order-

“ Source of income of the sale consideration of the property mentioned at serial no. 6 may be specified more particularly. Call for report afresh from the officer concerned. .”

The order of the Court had been communicated to the officer concerned vide Court's letter dated 14-02-2013 (flagged 'CC').

In reply of the Court's letter the officer concerned has replied vide his letter dated 18-03-13 (flagged 'D') in which he has stated that he has deposited Rs.4,08,000/- as registration fee in favour of API Anshal Ltd. Lucknow and the rest amount taken by loan from bank.(total cost of the plot is Rs:20,40,000/-). Neither the sale deed is executed nor he got possession of the aforesaid plot as yet. The sale deed be executed after the complete payment of the ^{total cost of the} aforesaid plot. Thereafter he was asked to furnish the details of the amount paid by him to API Ansal Ltd, Lucknow for purchase of self

owned Residential Plot vide Court's letter dated 18-04-2013. Now Sri Singh has replied vide his letter dated 18-12-2014 duly forwarded the District Judge, Ghaziabad through endt. no. 5730/XV dated 18-12-2014, which is at flag 'AA' and reproduced below in verbatim :-

महोदय,

सादर निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लखनऊ से आवासीय भूखण्ड डेवलपमेंट लिंक प्लान के अंतर्गत आबंटन हेतु आवेदन दिनांक 25-06-2010 को किया था। आबंटन प्रपत्र मुझे दिनांक 13-06-2011 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवासीय भूखण्ड 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल का है जिसकी कीमत रुपये 20,40,000/- रुपये तथा आबंटन राशि रुपये 4,08,000/- मेरे द्वारा दिया गया है जिसमें मेरे स्वयं के बचत खातों से रुपये 1,75,000/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा चंदौसी मुरादाबाद से चेक संख्या 99307 खाता सं0-30699975014, रुपये 75,000/- बैंक आफ बडौदा शाखा निशातगंज लखनऊ से चेक संख्या 604943 खाता सं0-06840100005104, रुपये 50,000/- बैंक आफ इंडिया शाखा बाराबंकी से चेक संख्या-000191 खाता सं0-17,168, रुपये 50,000/- पत्नी श्रीमती आकांक्षा सिंह के पंजाब नेशनल बैंक शाखा एच.ए.एल. (H.A.L.) लखनऊ चेक संख्या 35862 खाता सं0-2414000101274349 से तथा रुपये 58,000/- सिंडीकेट बैंक इन्दिरा नगर लखनऊ चेक संख्या 498967 श्रीमती इंदिरा कटियार (पत्नी की माँ) से आकरिमक आवश्यकता के कारण लिया था। अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लखनऊ द्वारा एक ही दिन में बुकिंग पूर्ण कर ली गयी थी उस समय मेरी नियुक्ति बाह्य न्यायालय चंदौसी, मुरादाबाद में थी। चेक की उपलब्धता न होने के कारण 58,000/- रुपये आकरिमक रूप से मेरे द्वारा सास से लिया गया था वह भी आयकर दाता थी, 15 फरवरी 2011 को उनके कैसर से पीड़ित होने की सूचना पर सपरिवार मिलने पहुँचे। दिनांक 15, 16 व 17 फरवरी 2011 को अपने वेतन खाते से ए.टी.एम. (A.T.M.) से निकालकर इलाज की आवश्यकता के कारण नकद वापस कर दिया जिसकी बैंक आहरण सम्बन्धी पासबुक की प्रति संलग्न है। मेरी सास श्रीमती इंदिरा कटियार की असामयिक मृत्यु हो चुकी है। मेरे द्वारा कुल रुपये 40,8000/- उपरोक्तानुसार अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लखनऊ को देकर आवासीय भूखण्ड आबंटित कराया गया। रुपये 14,40,000/- का ऋण बैंक से स्वीकृत हुआ है। ऋण की मासिक किश्त रुपये 10,000/- रुपये प्रतिमाह इस समय मेरे द्वारा भुगतान की जा रही है। इस संबंध में ऋण स्वीकृति प्रमाण-पत्र प्रति संलग्न है।

माननीय न्यायालय से यह भी निवेदन है कि सेवा में आने के समय मेरे व पत्नी के बैंक खातों में रुपये 4,18,620/- जमा थे। उक्त राशि मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ तथा जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ में वर्ष 1995 से 2005 के मध्य वकालत के पेशे से अर्जित किया गया है। वर्ष 2001 से मेरे द्वारा लगातार इन्कम टैक्स अदा किया गया है। जिसका सम्पूर्ण विवरण मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की सेवा में सम्पत्ति विवरण वर्ष 2006-07 में प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पत्नी का पंजाब नेशनल बैंक में बचत खाता वर्ष 2004 से है। पत्नी के बचत खाते में मेरे न्यायिक सेवा में आने के पहले से 94,438/- रुपये जमा थे, उक्त राशि पत्नी द्वारा माता पिता तथा ससुराल से विवाह व अन्य अवसर पर प्राप्त उपहार आदि से जमा की गयी है। इसका विवरण, संपत्ति विवरण वर्ष 2006-07 में माननीय न्यायालय की सेवा में मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

माननीय महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त भूखण्ड हेतु बैंक से भी ऋण लिया गया है। भूखण्ड का अभी तक पंजीकरण व कब्जा नहीं प्राप्त हुआ है। पंजीकरण व कब्जा प्राप्त कर लेने पर माननीय न्यायालय के परिपत्र के अनुसार वांछित सूचना पुनः माननीय न्यायालय की सेवा में सादर प्रेषित की जायेगी।

आख्या माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ व सहानुभूति पूर्व विचार हेतु सादर प्रेषित है।

आदर सहित।

May, therefore, if approved, the reply dated 18-12-2014 furnished by the officer through the District Judge Ghaziabad through endt. no. 5730/XV dated 18-12-2014 (flagged 'AA') by Sri Gyanendra Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad in the matter related to statement of financial years 2010-11 & 2011-12 be laid before Hon'ble Mr. Justice A. P. Sahi, Administrative Judge, Ghaziabad Judgeship for his Lordship's kind perusal and orders?

AKS/m/m
06/02/15

Dr. Jain
07.02.15
S.O.

Senior Registrar (Judicial)(Budget)

Submitted for kind perusal and onward submission before Hon'ble Mr. Justice A. P. Sahi, Hon'ble the Administrative Judge, Ghaziabad for His Lordship's kind perusal and orders.

D.R. (Misc.)
D. R. (Misc.)

Req(B)
seen - The officer will report about any future transaction in respect of the source of payments in relation to the P.A. question : A.P. Sahi
10/2/15

Hon'ble Mr. Justice A.P. Sahi
Administrative Judge, Ghaziabad

Submitted for kind perusal & orders.

10.2.15
Senior Registrar (Budget)

DR (M)

So. Rego (B)
11.2.15

Mr. Anand
11.2.15

So (Admin. Acl)

DR (M)
11-2-15